

मङ्गलम्

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामनं कृष्टयः सं बभूवः।
 यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥1॥

यस्याशच्तस्मः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामनं कृष्टयः सं बभूवः।
 या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यने दधातु ॥2॥

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।
 सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥3॥

- जिस (भूमि) में महासागर, नदियाँ और जलाशय (झील, सरोवर आदि) विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बना कर रहते हैं (कृष्टयः सं बभूवः), जिस (भूमि) में ये साँस लेते (प्राणत्) प्राणी चलते-फिरते हैं; वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ (खाद्य-पेय) प्रदान करे ॥1॥
- जिस भूमि में चार दिशाएँ तथा उपदिशाएँ अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ (फल, शाक आदि) उपजाती हैं; जहाँ कृषि-कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं (कृष्टयः सं बभूवः); जो (भूमि) अनेक प्रकार के प्राणियों (साँस लेने वालों तथा चलने-फिरने वाले जीवों) को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ-आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में सम्पन्न बना दे ॥2॥
- अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन-समुदाय को, एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने देने वाली (अनपस्फुरन्ती) स्थिर-जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो ॥3॥



0961CH01

प्रथमः पाठः
भारतीवसन्तगीतिः


अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवे: पण्डितजानकीवल्लभशास्त्रिणः “काकली” इति गीतसंग्रहात् सङ्कलितोऽस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयते।

निनादय नवीनामये वाणि! वीणाम्
मृदुं गाय गीतिं ललित-नीति-लीनाम् ।
मधुर-मञ्जरी-पिञ्जरी-भूत-माला:
वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला:
कलापाः ललित-कोकिला-काकलीनाम् ॥1॥
निनादय...॥

वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे
कलिन्दात्मजायास्सवानीरतीरे,
नतां पङ्किमालोक्य मधुमाधवीनाम् ॥2॥
निनादय...॥

ललित-पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे
मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे,
स्वनन्तीन्तिम्प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम् ॥3॥
निनादय...॥

लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलम्
चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलम्,
तवाकर्ण्य वीणामदीनां नदीनाम् ॥4॥ निनादय...॥




शब्दार्थः


निनादय	नितरं वादय	गुंजित करो/बजाओ	Play (the musical instrument)
मृदुं ललितनीतिलीनाम्	चारु, मधुरं सुन्दरनीतिसंलग्नाम्	कोमल सुन्दर नीति में लीन	Melodious Merged in nice rules
मञ्जरी	आम्रकुसुमम्	आम्रपुष्प	Blossom of mango tree
पिञ्जरीभूतमाला: लसन्ति	पीतपङ्क्तयः शोभन्ते	पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं	Yellow rows Looking magnificent
इह सरसाः	अत्र	यहाँ	Here
रसालाः	रसपूर्णाः	मधुर	Juicy
कलापाः	आप्राः	आम के पेड़	Mango trees
काकली	समूहाः कोकिलानां ध्वनिः	समूह कोयल की आवाज	Groups Sound of cuckoo birds
सनीरे समीरे	सजले	जल से पूर्ण	Full of water
कलिन्दात्मजायाः	वायौ यमुनायाः	हवा में यमुना नदी के	In the wind Of the river Yamuna
सवानीरतीरे	वेतसयुक्ते तटे	बेंत की लता से युक्त तट पर	On the shore with bamboos
नताम् मधुमाधवीनाम् ललितपल्लवे	नतिप्राप्ताम् मधुमाधवीलतानाम् मनोहरपल्लवे	झुकी हुई मधुर मालती लताओं का मन को आकर्षित करने वाले पत्ते पुष्पों के समूह पर	The bent Of Malti creepers On an attractive leaf
पुष्पपञ्जे	पुष्पसमूहे	पुष्पों के समूह पर	On the bunch of flowers
मलयमारुतोच्चुम्बिते	मलयानिलसंस्पृष्टे	चन्दन वृक्ष की सुगन्धित वायु से स्पर्श किये गये	Full of fragrance of sandal tree
मञ्जुकुञ्जे	शोभनलताविताने	सुन्दर लताओं से आच्छादित स्थान	In the summer house

स्वनन्तीं	ध्वनिं कुर्वतीम्	ध्वनि करती हुई	Creating sound
ततिं	पङ्क्षिम्	समूह को	The row
प्रेक्ष्य	दृष्ट्वा	देखकर	Seeing
मलिनाम्	कृष्णवर्णाम्	मलिन	The black
अलीनाम्	भ्रमराणाम्	भ्रमरों के	Of drones
सुम्	कुसुमम्	पुष्प को	The flower
शान्तिशीलम्	शान्तियुक्तम्	शान्ति से युक्त	Peaceful
उच्छलेत्	ऊर्ध्वं गच्छेत्	उच्छलित हो उठे	Go up
कान्तसलिलम्	मनोहरजलम्	स्वच्छ जल	Clear water
सलीलम्	क्रीडासहितम्	खेल-खेल के साथ	In a playful manner
आकर्ष्य	श्रुत्वा	सुनकर	Listening

 अभ्यासः

1. एकपदेन उत्तरं लिखत-

- (क) कविः कां सम्बोधयति?
- (ख) कविः कां वादयितुं वाणीं प्रार्थयति?
- (ग) कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति?
- (घ) गीतिं कथं गातुं कथयति?
- (ङ) सरसाः रसालाः कदा लसन्ति?

2. पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत-

- (क) कविः वाणीं किं कथयति?
- (ख) वसन्ते किं भवति?
- (ग) सलिलं तव वीणामाकर्ण्य कथम् उच्चलेत्।
- (घ) कविः कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पङ्क्षिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं भगवतीं भारतीं कथयति?

3. ‘क’ स्तम्भे पदानि, ‘ख’ स्तम्भे तेषां पर्यायपदानि दत्तानि। तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत-

‘क’ स्तम्भः

- (क) सरस्वती
- (ख) आप्रम्

‘ख’ स्तम्भः

- (1) तीरे
- (2) अलीनाम्

- | | |
|----------------|-----------|
| (ग) पवनः | (३) समीरः |
| (घ) तटे | (४) वाणी |
| (ङ) भ्रमराणाम् | (५) रसालः |
4. अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृतभाषया वाक्यरचनां कुरुत-
- | | |
|------------|----------------|
| (क) निनादय | (ख) मन्दमन्दम् |
| (ग) मारुतः | (घ) सलिलम् |
| (ङ) सुमनः | |
5. प्रथमश्लोकस्य आशयं हिन्दीभाषया आड्ग्लभाषया वा लिखत-
6. अधोलिखितपदानां विलोमपदानि लिखत-
- | | |
|---------------|---------|
| (क) कठोरम् | - |
| (ख) कटु | - |
| (ग) शीघ्रम् | - |
| (घ) प्राचीनम् | - |
| (ङ) नीरसः | - |

परियोजनाकार्यम्

पाठेऽस्मिन् वीणायाः चर्चा अस्ति। अन्येषां पञ्चवाद्यायन्त्राणां चित्रं रचयित्वा संकलय्य वा तेषां नामानि लिखत।

© योग्यताविस्तारः

यह गीत आधुनिक संस्कृत-साहित्य के प्रख्यात कवि पं. जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना 'काकली' नामक गीतसंग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वन्दना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती! ऐसी वीणा बजाओ, जिससे मधुर मञ्जरियों से पीत पंक्तिवाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे-धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुज्जार और नदियों का (लीला के साथ बहता हुआ) जल, वसन्त ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गयी यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणास्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जनसमुदाय को प्रेरित करे।

अन्वय और हिन्दी भावार्थ

अये वाणि! नवीनां वीणां निनादय। ललितनीतिलीनां गीतिं मृदुं गाय।
हे वाणि! नवीन वीणा को बजाओ, सुन्दर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो।
इह वसन्ते मधुरमञ्जरीपिञ्जरीभूतमालाः सरसाः रसालाः लसन्ति। ललित-
कोकिलाकाकलीनां कलापाः (विलसन्ति)। अये वाणि! नवीनां वीणां निनादय।

इस वसन्त में मधुर मञ्जरियों से पीली हो गयी सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली (बोली, कूक) वाली कोकिलों के समूह सुन्दर लग रहे हैं। हे वाणी! नवीन वीणा को बजाओ।

कलिन्दात्मजाया: सवानीरतीरे सनीरे समीरे मन्दमन्दं वहति (सति) माधुमाधवीनां नतां पद्भिक्तम् अवलोक्य अये वाणि! नवीनां वीणां निनादय।

यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिन्दुओं से पूरित वायु के मन्द मन्द बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर, हे वाणी! नवीन वीणा को बजाओ।

ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मञ्जुकुञ्जे मलय-मारुतोच्चुम्बिते स्वनन्तीम् अलीनां मलिनां ततिं प्रेक्ष्य अये वाणि! नवीनां वीणां निनादय।

मलयपवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पपुञ्जों तथा सुन्दर कुञ्जों पर काले भौंरों की गुज्जार करती हुई पर्कित को देखकर, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ।

तव अदीनां वीणाम् आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत् नदीनां कान्तसलिलं सलीलम् उच्छलेत्। अये वाणि! नवीनां वीणां निनादय।

तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितान्त शान्त सुमन हिल उठें, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी! नवीन वीणा को बजाओ।

प्रस्तुत गीत के समानान्तर गीत-

वीणावादिनि वर दे।

प्रिय स्वतन्त्र रव अमृत मन्त्र नव,

भारत में भर दे।

वीणावादिनि वर दे

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला के गीत की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, जिनमें सरस्वती से भारत के उत्कर्ष के लिये प्रार्थना की गई है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरणगुप्त की रचना “भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती” भी ऐसे ही भावों से ओतप्रोत है।

पं. जानकीवल्लभ शास्त्री

पं. जानकी वल्लभ शास्त्री हिन्दी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। अपनी किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। उन्नीस वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह ‘काकली’ का प्रकाशन हुआ।

शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक, आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएँ बहुत लोकप्रिय हुईं। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला।